



क़ानूनी विभाग

नीति का नाम:	कॉन्फ़्लिक्ट खनिज नीति (Conflict Minerals Policy)
नीति संख्या:	LEGL.POL.110
नीति अनुभाग:	क़ानूनी विभाग
नीति के स्वामी:	वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महा परामर्शदाता
प्रभावी तिथि:	३ मार्च, २०१४
संस्करण संख्या:	१.०
पिछला संशोधन:	३ मार्च, २०१४
स्थान:	home.commscope.com

कॉमस्कोप की नैतिकता और व्यापार आचरण संहिता (नैतिकता और व्यापार) के अनुसार, हम डोड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ("अधिनियम") की धारा १५०२ ("धारा १५०२") के प्रयोजन का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य कुछ ऐसे "कॉन्फ़्लिक्ट खनिज" के उपयोग (जैसा कि धारा १५०२ में परिभाषित किया गया है) पर प्रतिबंध लगाकर जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (The Democratic Republic of the Congo - DRC) या आसपास के देशों में सशस्त्र समूहों को वित्तपोषण को लाभ देते हैं (जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है) मानव अधिकारों के उल्लंघन का अंत करते हैं। कॉन्फ़्लिक्ट खनिजों को वर्तमान में कोलंबाइड-टैंटेलाइट (कोल्टन) (यानी, टैंटेलम), कैसिटेराइट (यानी, टिन), स्वर्ण, वुल्फ्रेमाइट (यानी, टंगस्टन) और उनके व्युत्पन्न, और किसी अन्य खनिज और उनके व्युत्पन्न के रूप में परिभाषित किया जाता है जो DRC या आसपास के देशों में विरोध के लिए वित्तपोषण करते हैं, जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा निर्धारित किया गया है।

कॉमस्कोप कॉन्फ़्लिक्ट खनिजों के मामले में मानव अधिकार, नैतिकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के संबंध में हमारे बुनियादी मूल्यों को कायम रखने और बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। उस लक्ष्य के लिए, कॉमस्कोप इनके लिए वचनबद्ध है:

- ऐसे कॉन्फ़्लिक्ट खनिजों का उपयोग टालना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से DRC या आसपास के देशों में सशस्त्र समूहों को वित्तपोषण या लाभ देते हैं;
- अधिनियम की धारा १५०२ के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग दायित्वों, और साथ ही अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग (U.S. Securities and Exchange Commission) द्वारा जारी संबंधित नियमों और विनियमों का अनुपालन करना;

- यह निर्धारित करने के लिए किसी कॉन्फ्लिक्ट खनिज के स्रोत में मूल देश की मुनासिब पूछताछ करना जिसमें हमारे उत्पाद शामिल हैं कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट खनिज किसी शामिल देश में उत्पन्न हुआ है, या स्क्रेप या पुनर्नवीनीकरण स्रोतों से आया है;
- जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ स्रोत और इसके कॉन्फ्लिक्ट खनिज अभिरक्षा की शृंखला के संबंध में उपयुक्त जाँच-पड़ताल और रिपोर्टिंग प्रक्रिया लागू करना;
- हमारे आपूर्तिकर्ताओं पर यह सुनिश्चित करने की बाध्यता रखना कि कॉमस्कोप को प्रदान किए गए सभी उत्पाद या सामग्री DRG विरोध से मुक्त हैं (जैसा कि अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है) और समूची आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से घोषणाएँ प्राप्त करना।

कॉमस्कोप के आपूर्तिकर्ताओं को कॉन्फ्लिक्ट खनिजों और जिम्मेदार सोर्सिंग के मामले में सभी लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करने, और यह सुनिश्चित करने के लिए कॉमस्कोप के साथ सहयोग करना आवश्यक है कि कॉमस्कोप अपने खुद के कानूनी दायित्व पूरा कर सकती है। आपूर्तिकर्ता समान आवश्यकताएँ अपने आपूर्तिकर्ताओं पर भी पारित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

आपूर्तिकर्ता को यह घोषणा करने की आवश्यकता होगी कि आपूर्ति किए गए सभी उत्पाद, घटक, और सामग्री में या तो:

1. वे कॉन्फ्लिक्ट खनिज शामिल नहीं हैं जो उनके उत्पादन या कार्यक्षमता के लिए आवश्यक हैं, या,
2. अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट खनिज शामिल हैं, तो वे गैर-कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों से या ऐसे स्मेल्टर्स से उत्पन्न हुए हैं जिनका स्वतंत्र निजी क्षेत्र के पक्ष ने सत्यापन किया है कि वे विरोध मुक्त हैं।

इस नीति के साथ सतत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कॉमस्कोप अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करेगी। हमारे उत्पादों सहित किसी कॉन्फ्लिक्ट खनिज के स्रोत के बारे में कॉमस्कोप हमारे आपूर्तिकर्ताओं से अतिरिक्त प्रलेखन केलिए अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम पाँच सालों तक ट्रेस-क्षमता डेटा बनाए रखने और अनुरोध करने पर कॉमस्कोप को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।